

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

नोटों के नियम में बंदलाव : 10, 20 और 50 रुपये की नोटों के लिए RBI शुरू करेगा खास ATM

Sanket Morankar

Published on 13 Mar 2026



देश में छोटी नोटों की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत 'स्मॉल वैल्यू डिस्पेंसर' नाम का विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिससे नागरिक एटीएम से सीधे **10, 20 और 50 रुपये की नोटे** निकाल सकेंगे।

सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि देश में छोटी नोटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आम लोगों को रोजमर्रा के खर्च के लिए आसानी से छोटी नोटें मिल सकें, इसके लिए यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है।

क्या है स्मॉल वैल्यू डिस्पेंसर ?

स्मॉल वैल्यू डिस्पेंसर एक खास प्रकार का एटीएम होगा, जिसमें ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जो केवल छोटी नोटें ही वितरित करेंगी। इस सुविधा के जरिए लोग सीधे एटीएम से 10, 20 और 50 रुपये की नोटें निकाल सकेंगे, जिससे छोटे लेन-देन करना आसान हो जाएगा।

आम लोगों को कैसे होगा फायदा ?

यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो रोजमर्रा के खर्च जैसे:

- रिक्शा या ऑटो का किराया
- सब्जी या किराना खरीदना
- छोटे दुकानों पर भुगतान

जैसे कामों के लिए छोटी नोटों की जरूरत होती है।

ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में जहां डिजिटल भुगतान की सुविधा सीमित है, वहां यह पहल और भी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है।

संसद में क्या कहा गया ?

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने संसद में बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में कुछ स्थानों पर विशेष एटीएम लगाए जाएंगे। इसके सफल होने के बाद इसे देशभर में लागू किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि **26 फरवरी 2026 तक देश में 10 रुपये की 439.40 करोड़, 20 रुपये की 193.70 करोड़ और 50 रुपये की 130.30 करोड़ नोटे जारी की जा चुकी हैं।**

भविष्य में बढ़ेगी सुविधा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से बाजार में छोटी नोटों की उपलब्धता बेहतर होगी। इससे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों को रोजमर्रा के लेन-देन में बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार और RBI की इस पहल से नकद लेन-देन को अधिक सुविधाजनक बनाने और छोटे भुगतान को आसान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.